

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6— सितम्बर 12, 2014 (भाद्रपद 15, 1936)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2014 (BHADRA 15, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 अगस्त 2014

संख्या-ओ.दो.3980/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० सदाफुले अरविंद श्रीमंत को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 08.08.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3978/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० अमित राज को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 06.08.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

संख्या—ओ.दो.3979/2014—कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० राहुल आर. को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600—39,100/— + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/— में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 06.08.2014 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा परीक्षा विभाग
(भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय)

नई दिल्ली—110124, दिनांक 19 अगस्त 2014

सं. 237 — जी.ई. 1/13—2006—श्री शंकर नारायण, (भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा — 1978) उप—नियंत्रक महालेखापरीक्षक के पद से दिनांक 31.07.2014 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 12 अगस्त 2014

शुद्धिपत्र

सं. /ए-32013/महानिदेशक/2014/19ए—खान मंत्रालय की जापन सं 1/7/2013-एम.॥ दिनांक 22.07.2014 के अनुपालन में, श्री हरबंस सिंह ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपर महानिदेशक (भूविज्ञान) के पद से अपनी 'तकनीकी त्यागपत्र' समर्पित करने के पश्चात् भा.भू.स. में सीधी भर्ती के आधार पर महानिदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण किया जो दिनांक 22.07.2014 (अपराह्न) से प्रभावी है एवं तदनुसार अधिसूचना सं. 4586एसपी- 4588एसपी एवं 3982ए-3991ए/ए-32013/डीजी/2014/19ए दिनांक 25.07.2014 जारी की गयी।

2. इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने अपने दिनांक 30.07.2014 एवं 31.07.2014 को पत्र सं 1/7/2014-एम.॥ द्वारा सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने विचार कर श्री हरबंस सिंह द्वारा दी गयी 'तकनीकी त्यागपत्र' को स्वीकार कर लिया हैं एवं 'तकनीकी त्यागपत्र' की स्वीकृति की प्रभावी तिथि भा.भू.स., में उनके महानिदेशक के पदभार ग्रहण की तिथि अर्थात् 31.07.2014 (अपराह्न) से समझी जाए।

3. इन परिस्थितियों को देखते हुए डॉ एस.के. वधावन, अपर महानिदेशक, जो महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर थे को भारमुक्त करते हुए श्री हरबंस सिंह को 31.07.2014 के अपराह्न से भा.भू.स. में महानिदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण करने के निदेश दिए जाते हैं।

4. खान मंत्रालय की उपरोक्त पत्रों एवं कार्यालय अधिसूचना सं 4586एसपी-4588एसपी एवं 3982ए-3991ए/ए-32013/डीजी/2014/19ए में की गयी आंशिक संशोधन दिनांक 25.07.2014 के अनुपालन में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सीधी भर्ती

आधार पर महानिदेशक के पद पर श्री हरबंस सिंह की नियुक्ति की तिथि को आगामी आदेशों तक 22.07.2014 (अपराहन) के स्थान पर 31.07.2014 (अपराहन) पढ़ी जाए।

अन्य सभी निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी।

सी. मुरलीधरण
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 25 जुलाई 2014

सं. /ए-32013/2-महानिदेशक/2014/19ए—राष्ट्रपति जी श्री हरबंस सिंह को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, समूह 'क' राजपत्रित अलिपीकवर्गीय पद, में महानिदेशक के पद पर रु. 80,000/- (नियत) के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में खान मंत्रालय, नई दिल्ली की दिनांक 22.07.2014 के ज्ञापन सं 1/7/2013-एम.॥ में उल्लेखित निबंधन और शर्त के आधार पर दिनांक 22.07.2014 से अर्थात् पदभार ग्रहण की तिथि से सेवानिवृत्त तक या अगले आदेश तक, जो पहले हो, सीधे भर्ती के आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. एम. मिश्रा
उपनिदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

मुंबई-85, दिनांक 13 अगस्त 2014

संदर्भ : पीडी/6(5)/2013-भर्ती-III/2014/9595—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री संतोष कुमार खरे, सहायक, ए.एम.डी., नागपुर को दिनांक 04.08.2014 (अपराहन) से आगामी आदेशों तक ₹ 9300--34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

दिनांक 18 अगस्त 2014

संदर्भ : पीडी/4(6)/2007-भर्ती-III(खंड-II)/2014/9685—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री प्रभाकर रामदास पौनिकर, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 05.08.2014 (पूर्वाहन) से आगामी आदेशों तक ₹ 9300--34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन ₹ 4600/- में इस अनुसंधान केंद्र में निजी सचिव (गैर-सचिवलयीन) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400 094, दिनांक 18 जुलाई 2014

सं. : भापाबो/भर्ती/4(15)/खण्ड-V/2013/3637—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) में उनके नाम के सामने उल्लिखित पद एवं तारीख के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय में अस्थाई रूप से

नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे उल्लिखित किया गया है :—

क्रम संख्या	नाम सर्वश्री	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुति	भापासं	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	बिभास प्रसाद	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापाबो(के.का)	01.07.2013
2.	श्रीमती प्रीती सरूप	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापाबो(के.का)	01.07.2013
3.	अजीत कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापाबो(के.का)	22.07.2013
4.	संजीव एल. रंधये	वैज्ञानिक सहायक/ई	तकनीकी अधिकारी/सी	भापाबो(के.का)	01.07.2013
5.	वैकटास्वामी पुरुषोत्तम	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.07.2013
6.	चोक्कलिंगम विवाकरन	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	तूतीकोरिन	01.07.2013
7.	पी.के. जगदिशन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	तूतीकोरिन	01.07.2013
8.	मनप्पा तलवार	तकनीकी अधिकारी/सी	तकनीकी अधिकारी/डी	तूतीकोरिन	15.07.2013

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है ।

वेतन बैंड / Pay Bands :

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	PB(3) 15600-39100	7600
वैज्ञानिक अधिकारी/डी	PB(3) 15600-39100	6600
तकनीकी अधिकारी/सी	PB(3) 15600-39100	5400

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 20 अगस्त 2014

संदर्भ : भापाबो/भर्ती/5(2)-तालचेर/2014/4140—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री हेमंत चरन साहू, सहायक, भापासं, तालचेर को दिनांक 15.03.2013 (पूर्वाहन) से 14.03.2014 के (अपराहन) तक वेतन बैंड रु. 9300 - 34800 + ग्रेड वेतन रु. 4800 में भापासं (तालचेर) में तदर्थ सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 14 अगस्त 2014

सं.वी.ई.सी.सी./ पदोन्नति (जुलाई)/2014/2344—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 4 रु. 37400-67000 तथा ग्रेड वेतन रु. 8900/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (जी) के पद पर जुलाई 01, 2014, के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1	श्री बिश्वजीत सरकार	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	पी.बी.-4 रु. 37400--67000 + जी.पी. रु 8700/-
2	डॉ. (श्रीमती) शरमिष्ठा भट्टाचार्या	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	पी.बी.-4 रु. 37400--67000 + जी.पी. रु 8700/-
3.	डॉ. संदीप पाल	वैज्ञानिक अधिकारी (एफ)	पी.बी.-4 रु. 37400--67000 + जी.पी. रु 8700/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.वी.ई.सी.सी./पदोन्नति (जुलाई)/2013/2350—राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक (बी) को इसी केन्द्र में वेतन बैंड 3 रु. 15600--39100 तथा ग्रेड वेतन रु. 5400/- के वेतनमान में तकनीकी अधिकारी (सी) के पद पर जुलाई 01, 2013, के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :—

नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
श्री शुभ्रत मजुमदार	वैज्ञानिक सहायक (बी)	पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + जी.पी. रु 4,200/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956

और

निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 12 अगस्त 2014

सं. आर.ओ.सि.560(5)/2014/2185—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	पं.सं	कम्पनी का नाम
01	15-16392	मैसर्स आधार् आलोएज् एण्ड स्टिल् प्राईवेट लिमिटेड
02	15-06960	मैसर्स एबीपी कन्सल्टान्सी प्राईवेट लिमिटेड
03	15-11066	मैसर्स ब्लेक् आक्युआमेरीन् प्राईवेट लिमिटेड

बी. मीश्रा
कम्पनी रजिस्ट्रार
ओडिशा

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 11th August 2014

No. F.20/2014-SCA(1)—Shri Pancham Singh Rawat, Branch Officer has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of July 31, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Dy. Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 13th August 2014

No. F. 20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Ajay Agrawal (IRLA No.15008), a Junior Administrative Grade (NFSG) officer of Indian Information Services (IIS) Group 'A', Director (News), Doordarshan News, as Additional Registrar in the Registry of Supreme Court of India, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of August 6, 2014.

M.K.HANJURA
Registrar (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 14th August 2014

No. O.II-3980/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sadafule Arvind Shrimant, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 08-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No. O.II-3978/2014-Pers(MOs)— The President is pleased to appoint Dr. Amit Raj, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 06-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

No. O.II-3979/2014-Pers(MOs)— The President is pleased to appoint Dr. Rahul R, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 06-08-2014(FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M. C. PANWAR
DIG(Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110124, the 19th August 2014

No. 3301-GE-I/13-2006—Shri Shankar Narayan (IA&AS-1978) has retired as Deputy Comptroller and Auditor General on superannuation from Government Service w.e.f. 31.07.2014 (AN).

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

MINISTRY OF MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
Kolkata-700016, the 12th August 2014

CORRIGENDUM

No. —/A-32013/DG/2014/19A—In compliance with the Ministry of Mines Memorandum No. 1/7/2013-M.II dated 22.07.2014, Shri Harbans Singh had submitted copy of the taking over charge to the post of the Director General, GSI on Direct Recruitment basis w.e.f. 22.07.2014 (AN) after tendering his 'Technical Resignation' from the post of Additional Director General (Geology) in GSI and accordingly a Notification was issued vide No. 4586SP-4588SP & 3982A-3991A/A-32013/ DG/ 2014/19A dated 25.07.2014.

2. Further, Ministry of Mines vide their letters No. 1/7/2013-M.II dated 30.07.2014 and 31.07.2014 conveyed that the Competent Authority has considered and pleased to accept the 'Technical Resignation' tendered by Shri Harbans Singh and the effective date of acceptance of his 'Technical Resignation' is to be treated from the date he takes over the charge of the Director General, GSI i.e. from 31.07.2014 (AN).

3. Under this circumstances, on being directed Shri Harbans Singh has taken over charge of the post of Director General, GSI w.e.f. the Afternoon of 31.07.2014 after relieving Dr. S.K. Wadhawan, Addl. Director General holding additional charge of Director General, GSI.

4. In compliance with the Ministry of Mines letters cited above and in partial modification to this Office Notification No. 4586SP-4588SP & 3982A-3991A /A-32013/ DG/ 2014/19A dated 25.07.2014, the date of joining of Shri Harbans Singh to the post of Director General in Geological Survey of India on Direct Recruitment basis may be read as '31.07.2014 (AN)' instead of '22.07.2014 (AN)' until further orders.

All other terms and condition will remain unaltered.

C. MURALEEDHARAN
Director (P)
For Director General

Kolkata-700016, the 25th July 2014

No. A-32013/DG/2014/19A— The President is pleased to appoint Shri Harbans Singh to the post of Director General in Geological Survey of India, Group 'A' Gazetted non-Ministerial post, in the Pay Band and Grade Pay of Rs. 80,000/- (Fixed) on Direct Recruitment basis w.e.f. 22.07.2014 (A.N.) i.e. the date of assumption of charge of the post and till his superannuation or until further order, whichever is earlier, on the terms and condition as laid down in the Ministry of Mines, New Delhi vide Memorandum No. 1/7/2013-M.II dated 22.07.2014

H. M. MISHRA
Dy. Director (P & A)
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
PERSONNEL DIVISION

Mumbai-85, the 13th August 2014

No. PD/6(5)/2013-R-III/2014/9595—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Santosh Kumar Khare, Assistant, AMD, Nagpur to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4800/- in this Research Centre with effect from the afternoon of 04.08.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

The 18th August 2014

No. PD/4(6)/2007-R-III(Vol.II)/2014/9685—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Prabhakar Ramdas Paunikar, Stenographer Grade-I to the post of Private Secretary(Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 05.08.2014 in the Pay Band-2 of Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 4600/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 18th July 2014

No. HWB/R/4(15)/Vol-V/2013/3637—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Board (C.O.)/ Heavy Water Plant (Tuticorin) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders. The Pay Band and Grade Pay of the posts are also indicated below:—

Sr. No.	NAME S/SHRI	PRESENT GRADE	PROMOTED TO GRADE	HWP	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	BIBHAS PRASAD	SO/D	SO/E	HWB (C.O.)	01.07.2013
2.	SMT. PREETI SAROOP	SO/D	SO/E	HWB (C.O.)	01.07.2013
3.	AJIT KUMAR	SO/C	SO/D	HWB (C.O.)	22.07.2013
4.	SANJEEV L. RANDHAYE	SA/E	TO/C	HWB (C.O.)	01.07.2013
5.	VENKATASAMY PURUSOTHAMAN	SO/D	SO/E	TUTICORIN	01.07.2013
6.	CHOCKALINGAM VIVAKARAN	SO/D	SO/E	TUTICORIN	01.07.2013
7.	P.K.JAGADEESAN	SO/C	SO/D	TUTICORIN	01.07.2013
8.	MANAPPA TALWAR	TO/C	TO/D	TUTICORIN	15.07.2013

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Pay Bands:

Post	Pay Band	Grade Pay
Scientific Officer/E	PB(3) 15600-39100	7600
Scientific Officer/D, Technical Officer/D	PB(3) 15600-39100	6600
Technical Officer/C	PB(3) 15600-39100	5400

K.S. PILLAI
Administrative Officer –III

The 20th August 2014

No. HWB/R/5(2)-Tal/2014/4140— Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Shri Hemant Charan Sahoo, Assistant, Heavy Water Plant (Talcher) to officiate as Assistant Personnel Officer on Ad-hoc basis in the Pay Band of Rs. 9300-34800 with Grade Pay Rs. 4800/- with effect from 15.03.2013 (Forenoon) to 14.03.2014 (Afternoon).

K.S. PILLAI
Administrative Officer-III

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 14th August 2014

No.VECC/Prom.(July)/2014/2344—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (G) in the Pay Band 4 of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 8900/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2014, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Biswajit Sarkar	Scientific Officer (F)	PB 4 Rs.37400-67000 + GP Rs. 8700/-
2.	Dr. (Smt.) Sarmishtha Bhattacharyya	Scientific Officer (F)	PB 4 Rs.37400-67000 + GP Rs. 8700/-
3.	Dr. Sandip Pal	Scientific Officer (F)	PB 4 Rs.37400-67000 + GP Rs. 8700/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

No.VECC/Prom.(July)/2013/2350—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Assistant (B) of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Technical Officer (C) in the Pay Band 3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 5400/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2013, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Subhabrata Mazumder	Scientific Assistant (B)	PB 2 Rs.9300-34800 + GP Rs. 4200/-

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956
and of following companies:

Cuttack-753014, the 12th August 2014

No. ROC/FTE/Sec. 560(5)/2014/2185—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the register

of the Registrar of Companies and the said Companies are dissolved.

Sl No.	No. of comp	Name of company
01	15-16392	AADHAR ALLOYS AND STEEL PRIVATE LIMITED
02	15-06960	ABP CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
03	15-11066	BLAKE AQUAMARINE PRIVATE LIMITED

B. MISHRA
ROC-cum-OL, ODISHA.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in